



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 271]

नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 जून, 1980/आषाढ़ 6, 1902

No. 271]

NEW DELHI, FRIDAY, 27 JUNE, 1980/ASADHA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 जून, 1980

का. आ. 470(अ).—18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./80—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. 411 (ई.)/18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./78, तारीख 27 जून, 1978 (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्था-पत्रों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनमें भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित है) जिनका मसम इन्चक टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

342 GI/80

और उक्त आदेश की अवधि 26 जून, 1980 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी [केलिंग भारत सरकार उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) का आदेश सं. 370 (अ)-18 एफ. बी./आई. डी. आर. ए./78, तारीख 27 जून, 1979] ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 26 जून, 1981 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. 2/24/76-सी. डू. एम.]

बी. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th June, 1980

S.O. 470(E).—18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 411(E)/18FB/IDRA/78, dated the 27th June, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section

(919)

18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Inchek Tyres Limited, Calcutta, or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 26th June, 1980, vide Order of the

Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 370(E)-18FB/IDRA/78 dated the 27th June, 1979;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period of one year upto and inclusive of the 26th June, 1981.

[F. No. 2(24)/76-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.